

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the total number of officers eligible for such passes and the annual tollways on this account, if any?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(PROF MADHU DANDAVATE): (a)
and (b) The matter is under examination

(c) 9.244 The grant of privilege passes/P.T.O.s to Railway employees does not necessarily entail loss to revenue as such.

विदेशों से कीटनाशी औषधियों का आयात

2050. श्री नबाब सिंह चौहान : क्या वैट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत दो वर्षों में विदेशों से कौन-कौन सी तथा कितनी-कितनी कीटनाशी औषधियों का आयात किया गया, और

(ख) देश में कीटनाशी औषधियाँ कितनी मात्रा में बनती हैं और उनकी कितनी आवश्यकता है ?

वैट्रोलियम, रसायन और उर्बरक मंत्री (श्री हेमचन्द्र नन्धन बहुगुणा) (क) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) 1976-77 के दौरान 82 700 मी० टन तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों की अनुमानित माँग की बुझना में उत्पादन 33,858 मी० टन था।

बिबरण

कीटनाशक आयातित मात्रा (मी० टनो में)
का नाम

	1975-76	1976-77
	(अप्रैल/दिसम्बर, 1976)	
1. बी एच सी 1305.75	0	10
2. डीडीटी 2451.19	1005	00
3. बीडी साइड्स 65 55	14	35
4. फ्लड्रिन 93.20	20.92	
5. क्लोरडेन 60 03	—	
6. डीडीवीपी 3.71	—	
7. डी०डी०टी- प्रोपेन 4320.42	333	01
8. इनड्रिन 985 46	36	80
9. हेप्टाक्लोर 164 01	4.51	
10. लिन्डेन 1 00	0.53	
11. अन्य कीट- नाशक 5868 10	1067	94
	15318 42	2483.16

श्रीरे से फलकोहल का तैयार किया जाना

2051. श्री नबाब सिंह चौहान : क्या वैट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) इस समय देश में श्रीरे से कितना फलकोहल बन रहा है और देश में इसकी कितनी आवश्यकता है ;

(ख) श्रीरे से कितना और किस प्रकार का फलकोहल बनता है ; और

(ग) क्या इसके मुख्य कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं और यदि हा, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलिएम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमबती नन्दन बहुगुणा) (क) और (ख) वर्तमान अल्कोहल 1976-77 वर्ष (अर्थात् 1 12 76 से 30 11 77 तक) के दौरान शीरा से 436 मिलियन लिटर अल्कोहल के उत्पादन का अनुमान है जिससे बरेलू आवश्यकताएँ पूरी होने की संभावना है। लगभग 30% अल्कोहल पेय में परिवर्तित किया जाता है जिसमें देशी शराब/एरेक अभी भारत में तैयार किये गये विदेशी शराब अर्थात् रम, जिन, ब्राडी, बिस्की आदि। शेष अल्कोहल औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ग) औद्योगिक अल्कोहल का मूल्य इथियल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 के अन्तर्गत नियन्त्रित है या पुनरीक्षा-प्राधीन है। इस समय अल्कोहल के मूल्य में कमी करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

Crisis faced by Fertilizers Factories

2052 SHRI C K CHANDRAPPAN Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state

(a) whether certain fertilizer factories are facing crisis at present,

(b) if so, the facts thereof, and

(c) how far this would affect the production of fertilizer?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H N BAHUGUNA) (a) to (c) None of the Fertilizer factories has brought to the notice of the Government any "crisis" which they may be facing It is however the constant endeavour of the Government to resolve such of the difficulties of this industry as come to its notice from time to time

Enquiry against Indian Oxygen and Birla Firms by MRTP Commission

2053 SHRI C K CHANDRAPPAN Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state

(a) the stage of Monopolies and Restrictive Trade Practices Commissions inquiries with regard to Indian Oxygen and Birla firms, and

(b) how long will it take to complete these inquiries?

THE MINISTER OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) (a) and (b) As regards Indian Oxygen Ltd the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission has instituted two enquiries on 10th February 1976 and 6th August 1976 The pleadings in the first enquiry are over and the issues will be framed and tried in the near future In respect of the second enquiry a revised notice of enquiry has been issued

The Monopoly and Restrictive Trade Practices Commission instituted enquiries against the following Birla firms